## <u>परिशिष्ट</u>

| सिविल से<br>विदेशी भा | वा (प्रधान) परीक्षा, 202<br>षा के साहित्य को एक वै | 20 तथा 2021 में बैठने<br>किल्पिक विषय के रूप | ो वाले उन उम्मीदवाः<br>में चना हो | रों से संबंधित विवरण, जि | ान्होंने किसी भारतीय भाषा<br> |  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 144 (11 -11           |  | रान परीक्षा में उपस्थित ह                    |                                   | ो संख्या                 |                               |  |
| क्रम.सं.              | भाषा   | 2020   |                                   | 2021                     |                               |  |
|                       | (वैकल्पिक विषय)                                    | पेपर-1                                       | पेपर-II                           | पेपर-1                   | पेपर-II                       |  |
| [क] वैकरि             | ्।<br>पेक विषय के तौर पर वि                        | ।<br>रुसी भारतीय भाषा का                     | <br>साहित्य                       |                          |                               |  |
| 1.                    | असमिया   | 2  | 2                                 | 0                        | 0                             |  |
| 2.                    | बांग्ला  | 2  | 2                                 | 3                        | 3                             |  |
| 3.                    | गुजराती  | 48   | 48                                | 31                       | 30                            |  |
| 4.                    | हिन्दी   | 223  | 222                               | 207                      | 206                           |  |
| 5.                    | कन्नड़   | 82   | 82                                | 59                       | 59                            |  |
| 6.                    | कश्मीरी  | 0  | 0                                 | 0                        | 0                             |  |
| 7.                    | कोंकणी   | 0  | 0                                 | 0                        | 0                             |  |
| 8.                    | मलयालम   | 93   | 93                                | 72                       | 72                            |  |
| 9.                    | मणिपुरी  | 4  | 4                                 | 2                        | 2                             |  |
| 10.                   | मराठी  | 9  | 9                                 | 8                        | 8                             |  |
| 11.                   | नेपाली   | 0  | 0                                 | 0                        | 0                             |  |
| 12.                   | उड़िया   | 2  | 2                                 | 0                        | 0                             |  |
| 13.                   | पंजाबी   | 25   | 25                                | 15                       | 14                            |  |
| 14.                   | संस्कृत  | 39   | 39                                | 32                       | 31                            |  |
| 15.                   | सिंधी (देवनागरी)                                   | 0  | 0                                 | 2                        | 2                             |  |
| 16.                   | सिंधी (अरबी)                                       | 1  | 1                                 | 0                        | 0                             |  |
| 17.                   | तमिल   | 63   | 62                                | 27                       | 27                            |  |
| 18.                   | तेलुगू   | 35   | 35                                | 20                       | 20                            |  |
| 19.                   | उर्दू  | 11   | 11                                | 7                        | 7                             |  |
| 20.                   | डोगरी  | 0  | 0                                 | 0                        | 0                             |  |
| 21.                   | मैथिली   | 31   | 31                                | 11                       | 11                            |  |
| 22.                   | संथाली   | 0  | 0                                 | 0                        | 0                             |  |
| 23.                   | बोडो   | 0  | 0                                 | 0                        | 0                             |  |
|                       | कुल [क]  | 670  | 668                               | 496                      | 492                           |  |

| वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या  |                 |         |        |         |  |  |  |
|---|-----------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| भाषा  | 2020            |         | 2021   |         |  |  |  |
| (वैकल्पिक विषय)   | पेपर <b>-</b> I | पेपर-II | पेपर-1 | पेपर-II |  |  |  |
| [ख] वैकल्पिक विषय के तौर पर अंग्रेजी साहित्य  |                 |         |        |         |  |  |  |
| वैकल्पिक विषय के तौर पर अंग्रेजी साहित्य को चुनने वाले<br>उम्मीदवारों की कुल संख्या [ख}   | 25              | 25      | 26     | 26      |  |  |  |
| किसी भाषा के साहित्य को वैकल्पिक विषय के तौर पर<br>चुनने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या [क+ख]   | 695             | 693     | 522    | 518     |  |  |  |
| पेपर 1 (निबंध) के आधार पर, परीक्षा में बैठने वाले<br>उम्मीदवारों की कुल संख्या के संदर्भ में भारतीय भाषा को<br>वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनने वाले उम्मीदवारों का<br>प्रतिशत [क] | 6.4822          | 6.4628  | 5.5574 | 5.5126  |  |  |  |
| [2020 में 10336 और 2021 में 8925]   |                 |         |        |         |  |  |  |